

कार्यकारी सारांश

जबकि COVID-19 महामारी ने हमारे सामने अभूतपूर्व चुनौतियां खड़ी कर दी हैं, मेरा कार्यालय रोग नियंत्रण और रोकथाम केन्द्रों और राज्य और स्थानीय अधिकारियों के सार्वजनिक स्वास्थ्य दिशानिर्देशों का सफलतापूर्वक पालन करते हुए सुरक्षित, पारदर्शी चुनाव कराने के लिए प्रतिबद्ध है।

7 अप्रैल, 2020 के सिटी ऑफ़ Westminster स्पेशल रि कॉल इलेक्शन के लिए, गवर्नर के कार्यकारी आदेश चुनाव को संचालित करने के लिए दिशा निर्देश प्रदान करते हैं क्योंकि चुनाव सामग्री मतदाताओं को पहले से ही मेल कर दी गई थी। मेरे कार्यालय ने आदेश का पालन करने हेतु हमारे ऑपरेशन को कारगर बनाने के लिए तेज़ी से प्रतिक्रिया दी, जिसमें व्यक्तिगत मतदान को रद्द करना, हमारे कार्यालय को सार्वजनिक रूप से बंद करना, फिजिकल डिस्टेंसिंग और सार्वजनिक सूचनाओं द्वारा बदलावों की जानकारी देना शामिल है। चुनाव संचालन को समायोजित करने के लिए पहले से ही त्वरित केन्द्रीकरण करने के अनुभव के साथ, गवर्नर द्वारा कार्यकारी आदेश जारी किए जाने के बाद, हम 19 मई, 2020 सिटी ऑफ़ Santa Ana स्पेशल रि कॉल इलेक्शन के सफलतापूर्वक आयोजन के लिए पूरी तरह तैयार थे। इसके अलावा, मेरा कार्यालय 2020 के मई और जून में सिटी ऑफ़ Westminster स्पेशल रि कॉल इलेक्शन और रिस्क-लिमिटिंग ऑडिट के दौरान सार्वजनिक स्वास्थ्य उपायों को लागू करना जारी रखने में सक्षम रहा है।

COVID-19 परिवेश में दो चुनाव कराने के हमारे अनुभव और 3 नवंबर, 2020 के राष्ट्रपति चुनाव के लिए हमारी तैयारियों के साथ, यह COVID-19 रिपोर्ट इस बात का एक बुनियादी अवलोकन प्रदान करती है कि पारदर्शिता और ईमानदारी के आधार पर मतदाताओं के लिए पर्याप्त सेवाओं को बनाए रखते हुए चुनावों को सुरक्षित रूप से संचालित करने के लिए क्या परिवर्तन आवश्यक हैं। यह रिपोर्ट बताएगी कि Orange काउंटी रजिस्ट्रार निम्नलिखित को किस प्रकार लागू करने का इरादा रखते हैं:

- मतदान केंद्रों पर व्यक्तिगत मतदान के लिए 11 दिन को घटा कर 5 दिन करना।
- राज्य और काउंटी के सार्वजनिक स्वास्थ्य मानकों के अनुसार मतदान केंद्र ग्राहक सेवा प्रतिनिधियों और मतदाताओं को सुरक्षित रखने के लिए स्वास्थ्य और सुरक्षा अभ्यासों को तैयार करना।
- मतदाताओं द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाना कि वे मतदान करें और सुरक्षित रूप से अपना मतपत्र लौटाएं।
- California चुनाव संहिता की धारा 14201 के तहत शिक्षा और पहुँच के लिए आवश्यक अतिरिक्त भाषा कवरेज।

मैं निष्पक्षता के साथ निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से मतदान तक पहुँच प्रदान करते हुए मतदाताओं और कर्मचारियों के स्वास्थ्य और सुरक्षा के संरक्षण के लिए अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करता हूँ।


भवदीय,




Neal Kelley
मतदाता रजिस्ट्रार
Orange काउंटी, CA

11 दिनों के व्यक्तिगत रूप से मतदान को कम करके 5 करने के समर्थन के साक्ष्य


3 मार्च, 2020 राष्ट्रपति के प्राथमिक चुनाव के लिए, Orange काउंटी रजिस्ट्रार ऑफ वोटर्स (OCROV) ने मतदान केंद्र मॉडल के तहत अपना पहला काउंटीव्यापी चुनाव कराया। मतदाता के टर्नआउट के विश्लेषण से पता चला कि मतदाताओं को मतदान केंद्रों तक पारगमन सकारात्मक रूप से प्राप्त हुआ था। दरअसल, इस चुनाव के लिए टर्नआउट (50.1%) 2000 के बाद से राष्ट्रपति के प्राइमरी चुनाव के लिए सबसे अधिक था। इसके अतिरिक्त, 18% मतदाताओं के मुकाबले में, जिन्होंने मतदान की जगह पर जाकर व्यक्तिगत रूप से मतदान का चयन किया था, 82% मतदाताओं ने डाक द्वारा मतदान का विकल्प चुना था।



पिछले प्रमुख चुनावों की तुलना में, रुझान बताते हैं कि डाक द्वारा मतदान COVID-19 महामारी से पहले भी मतदाताओं के बीच अधिक लोकप्रिय और उपयोग किया जाने वाला विकल्प था।



व्यक्तिगत मतदान वाले स्थान कम होने के बावजूद, मतदाताओं ने किसी भी मतदान केंद्र पर और चुनाव के दिन तक मतदान करने की अपनी क्षमता का उपयोग किया। कुछ मतदाता शुरुआती मतदान के पहले सात दिनों के दौरान मतदान केंद्रों पर गए और चुनाव के दिन से पहले अंतिम दिन तक इंतजार किया ताकि अपना मत डाल सकें। ऐसे कई स्पष्टीकरण हैं जैसे राजनीतिक गतिविधियों के होने की प्रतीक्षा करना और मतदान के लिए अंतिम दिन नजदीक आने पर तात्कालिकता की भावना महसूस करना।



चुनाव दिवस आने तक क्या बदलाव होगा, इसकी अनिश्चितता को देखते हुए, OCROV एक सकारात्मक मतदान का अनुभव प्रदान करने के लिए मतदाताओं को सर्वोत्तम सेवा देने के लिए सक्रिय कदम उठा रहा है और मतदाता पैटर्न का विश्लेषण कर रहा है। मतदान पैटर्न के विश्लेषण के आधार पर, आंशिक छूट के लिए OCROV का अनुरोध चुनाव के दिन से केवल चार दिन पहले मतदान केंद्र संचालित करने का है जो व्यक्तिगत रूप से मतदान और उस समय मतदान केंद्र के कर्मचारियों से अनावश्यक संपर्क को कम करने के लिए संतुलन प्रदान करता है जब व्यक्तिगत मतदान की मांग बहुत कम होगी।

मतदान केंद्र स्वास्थ्य एवं सुरक्षा की सर्वोत्तम प्रथाएं

COVID-19 के कारण उपयुक्त व्यवस्थाओं के बावजूद, परिसर भर्ती प्रक्रिया में पारंपरिक रूप से बड़े कमरों वाली सुविधाओं का समर्थन किया गया है। शारीरिक दूरी के दिशानिर्देशों के साथ, कर्मचारियों और मतदाताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ज़्यादा बड़े स्थानों को सुरक्षित करने की आवश्यकता महत्वपूर्ण है। भर्ती के शुरुआती चरण में, OCROV सभी उपलब्ध परिसरों की पहचान करने के लिए नगर निगम के सहयोगियों और सार्वजनिक एजेंसियों के साथ मिलकर काम करेगा।

बड़े मतदान कक्षों की पहचान करने के अलावा, OCROV उन परिसरों पर भी विचार करेगा, जिनमें ड्राइव-थ्रू बैलट ड्रॉप-ऑफ विकल्पों को समायोजित करने के लिए बड़ी पार्किंग है, जो शारीरिक दूरी का समर्थन करता है और मतदाताओं को अपना मतपत्र वापस करने के लिए अधिक विकल्प देता है। इसके अतिरिक्त, मतदान कक्ष के प्रवेश द्वार के बाहर पर्याप्त खुली जगह प्रदान करने वाले परिसर वांछनीय हैं, क्योंकि यह मतदाताओं को कतार में प्रतीक्षा करते समय उचित शारीरिक दूरी बनाए रखने की अनुमति देते हैं। OCROV यह भी ध्यान में रखेगा कि क्या इन परिसरों में पूर्व-परिभाषित COVID-19 दिशानिर्देश या प्रक्रियाएं मौजूद हैं, जैसे कि हम जो कमरे लेना चाह रहे हैं, उसके लिए संशोधित अधिकतम अधिभोग।

COVID-19 द्वारा उत्पन्न चुनौतियों को देखते हुए, OCROV उन परिसरों के उपयोग से बचना जारी रखेगा, जो COVID-19 के लिए उच्च जोखिम वाले व्यक्तियों को रखने और सेवा प्रदान करने हेतु हैं, जैसे वरिष्ठ नागरिक आवासीय सुविधाएं। OCROV कैंपस सुरक्षा के लिए प्रतिबद्धता के रूप में स्कूलों को परिसर भर्ती प्रक्रिया से जानबूझकर बाहर रखता है और इसके बजाय स्कूल जिला कार्यालयों को लक्षित करता है। हालांकि, OCROV विश्वविद्यालय, कॉलेज और सामुदायिक कॉलेज परिसरों को मतदान केंद्रों के रूप में उपयोग जारी रखेगा।

मतदान केंद्र लेआउट के लिए आवश्यक होगा कि वह मतदाताओं की पहुंच की आवश्यकताओं, प्रत्येक मतदान स्थान के अलग-अलग आकार और प्रकार को समायोजित करने और प्रत्येक मतदान केंद्र के बीच शारीरिक दूरी के लिए कतार वाले क्षेत्रों के भीतर, और सम्पूर्ण मतदान स्थान की न्यूनतम आवश्यकता के प्रति संवेदनशील हो।

प्रशिक्षण के ऑनलाइन और व्यक्तिगत दोनों घटकों में, CSRs को मतदान केंद्र और मतदान उपकरणों को ठीक से साफ करने और रोगाणुरहित करने के बारे में मार्गदर्शन दिया जाएगा। मतदान केंद्र में काम करने के दौरान न केवल CSRs को इन कार्यों को करने के लिए तैयार किया जाएगा, बल्कि यह अगले CSR और बाद में व्यक्तिगत प्रशिक्षण कक्षाओं के लिए प्रशिक्षण उपकरणों को भी साफ रखेंगे।

खोलने और बंद करने की दिनचर्या का अभ्यास व्यक्तिगत प्रशिक्षण के दौरान किया जाएगा, इसलिए प्रशिक्षण उपकरण की नियमित रूप से सफाई की जाएगी। CSRs को नियमित रूप से पूरे दिन में साझा की गई या छुई गई सतहों को नियमित रूप से पोंछने की सलाह दी जाएगी। इसमें, हैंडल, स्टाइलाई, चेक-इन टेबल, मतदान बूथ और स्क्रीन शामिल हैं लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं है। प्रशिक्षण और मतदान केंद्रों में सुरक्षित और स्वस्थ वातावरण बनाए रखने के लिए प्रत्येक CSR परिचर की भूमिका साझा सतहों को साफ करने के लिए तैयार होनी चाहिए।

CSRs को सफाई और कीटाणुशोधन आवश्यकताओं की अनुसूची का पालन करने के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा जो यह रेखांकित करेंगे कि कीटाणुशोधन योग्य क्षेत्र कौन से हैं, इसे कब किया जाना चाहिए, इसकी आवृत्ति क्या होगी और सफाई के लिए उपयोग किए जाने वाले आइटम क्या होंगे। मतदान की अवधि के प्रत्येक दिन के लिए एक मार्गदर्शिका के रूप में उपयोग करने हेतु CSRs को दैनिक चेकलिस्ट प्रदान की जाएगी।

उच्च जोखिम वाले मतदाताओं की सुरक्षा के लिए, उच्च स्पर्श वाली सतहों और मतदान बूथों को उपयोग के बीच साफ किए जाने की आवश्यकता होगी। इसमें उच्च-स्पर्श क्षेत्र शामिल हैं जैसे: ePollbooks, सटाईलाई, हैंडरेल, दरवाज़े के हैंडल, संशोधन उपकरण, प्रिंटर, प्रिंटर टेबल, BMD पर हेडफोन और स्पर्श नियंत्रक, और मतदान बूथ। हेडफोन के लिए

डिस्पोजेबल पेन और सिंगल-यूज डिस्पोजेबल इयर कवर दिए जाएंगे, ताकि प्रत्येक मतदाता के पास अप्रयुक्त और साफ-सुथरे उपकरण उपलब्ध हों।

OCROV को लक्षित स्थानों पर अनूदित संदर्भ मतपत्र और इस प्रकार का संकेत-पट्ट प्रदान करने की आवश्यकता है जो यह दर्शाता है कि तागालोग, फ़ारसी, जापानी, हिंदी और गुजराती में अनूदित संदर्भ मतपत्र लक्षित स्थानों पर उपलब्ध हैं। अनूदित संदर्भ मतपत्र को प्रत्येक मतदान केंद्र में एक टेबल पर बाइंडर में पोस्ट किया जाएगा और मतदाताओं के लिए संदर्भ गाइड के रूप में प्रतियां उपलब्ध होंगी। मतदान केंद्र पर अनूदित संदर्भ मतपत्र प्राप्त करने के अलावा, वे मतदाता जो किसी चिन्हित भाषा में अनूदित चुनाव सामग्री के लिए वरीयता का संकेत देते हैं और एक ऐसे पते पर पंजीकृत हैं जो लक्षित स्थान है, उन्हें अनूदित संदर्भ मतपत्र डाक से भेजा जाएगा। COVID-19 के परिणामस्वरूप अनूदित संदर्भ मतपत्रों को लेमिनेट किया जाएगा ताकि उन्हें उपयोग के बीच आसानी से पोंछा जा सके और वे रोगाणुमुक्त हो सकें।

इसके अलावा, OCROV, COVID-19 के उच्च जोखिम वाले लोगों की सुरक्षा के लिए सभी मतदान केंद्र स्थलों पर निम्नलिखित लागू करेगा:

- CSRs के लिए व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (हैंड सैनिटाइज़र, दस्ताने, फेस कवरींग, फेस शील्ड, टिथू)
- मतदान केंद्रों के अंदर और बाहर शारीरिक दूरी प्रोटोकॉल को समझाने वाले वर्धित साइनेज
- कर्बसाइड मतदान के लिए अवसर में वृद्धि (जहाँ संभव हो)
- मतदान के दौरान ड्राइव-थ्रू बैलट ड्रॉप ऑफ के अवसर
- सभी संशोधन उपकरणों सहित सभी मतदान उपकरणों के समय-समय पर कीटाणुशोधन सहायता के लिए सफाई सामग्री की आपूर्ति (इसमें कीटाणुनाशक पोंछे, कागज के तौलिए, स्पर्श रहित कूड़ेदान, कपड़े के कीटाणुनाशक शामिल हो सकते हैं)
- मतदाताओं के बीच कई संपर्कों को कम करने के लिए डिस्पोजेबल आइटम (हेडफोन के लिए ईयर कवर, पेन, गोपनीयता फ़ोल्डर)
- हैंड सैनिटाइज़र उपलब्ध होगा
- “मैंने मतदान किया” स्टिकर डिस्पेंसर जो CSR को मैन्युअल रूप से मतदाताओं को सौंपने या रोल के रूप में कई मतदाताओं द्वारा छुए जाने से रोकेगा
- VIG और नमूना मतदान जैसे डिजिटल संसाधनों को बढ़ावा देना

जैसा कि ऊपर उल्लिखित है, OCROV 3 नवंबर, 2020 के राष्ट्रपति आम चुनाव में, सुरक्षित, सुलभ और निरापद व्यक्तिगत मतदान विकल्पों की पेशकश करने के लिए कर्मचारियों और मतदाताओं के स्वास्थ्य और सुरक्षा को प्राथमिकता देने के लिए मतदान केंद्र के संचालन के लिए सभी आवश्यक समायोजन करेगा।

सुरक्षित मतदान विकल्प

डाक द्वारा मतदान

California में हर पंजीकृत मतदाता को प्रति विधानसभा बिल 860 पर डाक द्वारा मतदान बैलट प्राप्त होगा। Orange काउंटी ने 3 मार्च, 2020 राष्ट्रपति प्राइमरी चुनाव में प्रत्येक मतदाता को डाक द्वारा मतपत्र भेजने के लिए उपकरणों का अधिग्रहण किया और अपने संचालन को अद्यतन किया। OCROV के पास 3 नवंबर, 2020 के राष्ट्रपति आम चुनाव के लिए आवश्यक उपकरण और अनुभव है।

डाक द्वारा मतदान बैलट को डाक द्वारा भेजे जाने की शुरुआत मंगलवार 5 अक्टूबर, 2020 से होगी और पांच दिनों के भीतर पूरी की जाएगी। अपने मतपत्र की स्थिति की जाँच करने के लिए, मतदाता मतपत्र OCROV से निकालने अमेरिकी डाक सेवा द्वारा प्राप्त किए जाने, डिलिवरी के लिए रवाना होने, वापस OCROV पहुँचने, और क्या इसे संसाधित और स्वीकार किया गया है इसकी वास्तविक समय के अपडेट के लिए, OCROV के मतपत्र ट्रैकिंग प्रणाली, OC मतपत्र एक्सप्रेस का उपयोग कर सकते हैं। मतदाता की पसंद के आधार पर ईमेल या टेक्स्ट द्वारा सूचनाएं प्राप्त की जा सकती हैं।

दूरस्थ पहुँच डाक द्वारा मतदान

असेंबली बिल 860 के पारित होने से किसी भी मतदाता को दूरस्थ पहुँच डाक द्वारा मतदान (RAVBM) प्रणाली के माध्यम से अपने मतपत्र डालने की अनुमति मिलती है, जबकि यह पहले विकलांग, विदेशी मतदाताओं और सैन्य मतदाताओं के लिए सीमित था। जैसे, इस मतदान विकल्प में परिवर्तन के बारे में मतदाताओं को संदेश देना। हाल ही में एक विशेष चुनाव के दौरान, RAVBM मैसेजिंग को बदल दिया गया था: “दूरस्थ पहुँच डाक द्वारा मतदान बैलट विकलांगों, COVID-19 के कारण चिकित्सा प्रभाव वाले मतदाता, और विदेशी मतदाताओं को इलेक्ट्रॉनिक रूप से डाक द्वारा मतदान मतपत्र के अनुरोध का विकल्प प्रदान करता है।” जबकि यह मैसेजिंग मददगार था, 3 नवंबर, 2020 के राष्ट्रपति आम चुनाव के लिए “मेडिकल” शब्द को हटाने के लिए मैसेजिंग को बदलना होगा। इससे आसानी से यह भ्रम हो सकता है कि इस मतदान विकल्प का उपयोग करने के लिए मतदाता को केवल क्वारंटाइन में होना चाहिए या COVID-19 पॉज़िटिव होना चाहिए।

यह महत्वपूर्ण है कि मतदाता RAVBM की जानकारी OCROV वेबसाइट पर आसानी से पा सकें। OCROV अधिक सरलीकृत संदेश विकसित करने के लिए कार्यरत है जो RAVBM पर भेजे गए किसी भी संचार के साथ शामिल है; उदाहरण के लिए, “RAVBM का उपयोग करके घर से अपने मतपत्र तक पहुँच, प्रिंट, मार्क और मेल करना।” हमारी वेबसाइट पर, RAVBM पोर्टल पर और हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों पर मतदाता सूचना गाइड (VIG) में स्पष्ट और संक्षिप्त संदेश प्रदान किया जाएगा। संभावित अन्य शैक्षिक सामग्री, जैसे वीडियो और सूचनात्मक फ्लायर को OCROV सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर विकसित और साझा किया जा सकता है और अतिरिक्त पहुँच के लिए हमारे पहुँच सहयोगियों को भेजा जा सकता है।

मतपत्र ड्रॉप ऑफ बॉक्स

मतदाता आसानी से Orange काउंटी में स्थित 110+ मतपत्र ड्रॉप बॉक्स पर अपना मतपत्र छोड़ पाएंगे, जो मतपत्रों के मेल किए जाने के बाद 24/7 जनता के लिए खुले रहेंगे। 3 मार्च, 2020 राष्ट्रपति के प्राथमिक चुनाव में मतदाताओं द्वारा उपयोग किए जाने वाले स्थानों पर लगभग सभी बैलट ड्रॉप बॉक्स लगाए जाएंगे। इसके अतिरिक्त, मतदाता ड्रॉप बॉक्स की सूची मतदाता सूचना गाइड और ऑनलाइन ocvote.com पर सूचीबद्ध की जाएगी।

मतपत्र ड्रॉप बॉक्स से मतपत्रों को उठाते समय, प्रत्येक मतपत्र संग्रहण टीम बैलट ड्रॉप बॉक्स को साफ करने के लिए सफाई सामग्री की आपूर्ति साथ रखेगी। इनमें एक सर्व-प्रयोजन स्प्रे क्लीनर, आइसोप्रोपिल अल्कोहल, सफाई का पोछा, एक सफाई स्पंज और नाइट्राइल दस्ताने शामिल हैं। दोनों कर्मचारी सदस्यों द्वारा देखे जाने के बाद मतपत्रों को वाहन में लोड किया जाता है। बैलट ड्रॉप बॉक्स स्थान से आने और प्रस्थान करने पर टीम हमेशा OCROV के साथ रेडियो संपर्क बनाए रखती है।

मतदान केंद्रों पर व्यक्तिगत मतदान

OCROV व्यक्तिगत मतदान स्थानों पर स्वास्थ्य और सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए कदम उठा रहा है, कृपया मतदान केंद्र स्वास्थ्य और सुरक्षा की सर्वोत्तम प्रथाओं के पिछले भाग को देखें।

California चुनाव संहिता धारा 14201 के तहत शिक्षा और पहुँच के लिए आवश्यक अतिरिक्त भाषा कवरेज।

Orange काउंटी के विविध समुदायों को विभिन्न स्रोतों से समाचार अपडेट और जानकारी प्राप्त होती है, जिसमें भाषा मीडिया आउटलेट शामिल हैं। OCROV में भाषा समुदायों के लिए संपर्क के रूप में सेवा करने के लिए समर्पित पूर्णकालिक कर्मचारी हैं और समुदायों में भाषा मीडिया सहयोगियों के साथ मजबूत संबंध विकसित किए हैं जो कि स्पेनिश, चीनी, वियतनामी, कोरियाई, फ़ारसी, तागालोग, गुजराती, हिंदी और जापानी बोलते हैं। आगामी चुनाव और टोल-फ्री मतदाता सहायता हॉटलाइन पर जानकारी भाषा मीडिया सहयोगियों के साथ साझा की जाएगी।

OCROV विभिन्न अवधि और थीम की 70 से अधिक वीडियो (सभी आवश्यक भाषाओं में अनूदित) विकसित कर रहा है। वीडियो सूचनात्मक होने के साथ-साथ निर्देशात्मक भी होंगे जैसे कि चुनाव की तिथि और मतपत्र वापस करने के विभिन्न विकल्पों के बारे में मतदाताओं को सूचित करना। Orange काउंटी में विभिन्न स्थानों पर फिल्मांकन होगा, जिसमें एक नमूना मतदान सेंटर लेआउट द्वारा यह दिखाया जाएगा की मतदाता शारीरिक दूरी बनाए रख कर कैसे सुरक्षित रूप से मतदान कर सकते हैं और अपने मतपत्र को लौटा सकते हैं। वीडियो ओपन-कैप्शन किए जाएंगे और उन मतदाताओं को शामिल करने के लिए सुलभ स्वरूपों में होंगे जिन्हें सुनने में दिक्कत है या बधिर है और वे मतदाता जो अंधे या नेत्रहीन हैं। इसके अतिरिक्त, वीडियो स्पेनिश, वियतनामी, चीनी, कोरियाई, फ़ारसी, गुजराती, हिंदी और तागालोग में ऑडियो-रिकॉर्ड किए जाएंगे। सामग्री सामान्य मीडिया सहयोगियों और भाषा मीडिया सहयोगियों को प्रदान की जाएगी।

भाषा सहायता का अनुरोध करने वाले मतदाताओं को व्यक्तिगत समर्थन के पूरक के रूप में, सभी मतदान केंद्रों पर बहुभाषी सहायता प्रदान करने के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग उपलब्ध होगी। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि भाषा सहायता की आवश्यकता वाले मतदाता प्रशिक्षित द्विभाषी कर्मचारियों के साथ बातचीत कर पाएँ जो मतदाता का मौखिक रूप से और विजुअल रूप से मार्गदर्शन कर सकते हैं, मतदान प्रक्रिया में सार्थक रूप से भाग लेने के लिए मौखिक रूप से और विजुअल रूप से मार्गदर्शन कर सकते हैं, भले ही मतदान केंद्र में शारीरिक रूप से कोई द्विभाषी कर्मचारी उपस्थित न हो। अनुरोध करने वाले मतदाता की प्राथमिकता के आधार पर टेलीफोन समर्थन भी उपलब्ध होगा।

अंततः, 3 नवंबर, 2020 के राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान और चुनावों के लिए आगामी परिवर्तनों की भाषा समुदायों को सूचित करने के लिए वोटिंग राइट्स एक्ट और चुनाव संहिता की धारा 203 के अनुसार अगस्त और सितंबर 2020 तक OCROV सामुदायिक सहयोगियों (अंग्रेजी और / या जब-तब संभव हो) के साथ द्विभाषी कार्यशालाओं की मेजबानी करेगा। संभावित सामुदायिक सहयोगियों की पहचान की गई है और प्रकाशन के समय नियोजन प्रक्रिया जारी है।

निष्कर्ष

यथा इस प्रकाशन, योजना पहले से ही अच्छी तरह चल रही है, और जैसे ही राज्य सचिव जैसी सरकारी संस्थाओं द्वारा अतिरिक्त मार्गदर्शन जारी किए जाने, और COVID-19 के बारे में अधिक जानकारी मिलने के साथ ही तेज़ी से परिवर्तन हो रहे हैं। व्यक्तिगत मतदान स्थलों को सुरक्षित करने, उपकरण तैयार करने और सामग्री और आपूर्ति हासिल करने के लिए सीमित समय के साथ, हम मानते हैं कि हमारे विश्लेषण और प्रयास मजबूत हालत का निर्माण करते हैं कि सभी स्थानों पर मतदान केंद्र संचालन के पांच दिनों के दौरान व्यक्तिगत मतदान की जरूरतों को पूरा किया जाएगा।

मतदाताओं और कर्मचारियों की स्वास्थ्य और सुरक्षा की अतिरिक्त कोशिशों को लागू किया जाएगा क्योंकि नई चुनौतियाँ पैदा होती हैं और हालात बदलते हैं। जो ज्ञात है और जिसका अनुमान लगाया जा सकता है, उसके आधार पर OCROV ने निम्नलिखित के माध्यम से तेजी से बदलते संकट के दौरान सार्वजनिक स्वास्थ्य चुनौतियों के जवाब में Orange काउंटी को स्थान देने की मांग की है:

- स्वास्थ्य और सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए मतदाताओं के लिए व्यक्तिगत मतदान की सामग्रियाँ, जैसे कि कलम, कीटाणुनाशक वाइप्स और फेस कवरींग एकमुश्त प्रदान करना
- सेवाएं और सूचना प्राप्त करने के लिए उम्मीदवारों और जनता के सदस्यों के लिए आभासी अवसरों की व्यवस्था करना
- जनता के लिए ऐसे तरीके विकसित करना ताकि वे घर या कार्यालय में चुनाव प्रक्रिया का सुरक्षित रूप से पालन कर सकें
- मतदान केंद्र के कर्मचारियों के लिए दूरस्थ शिक्षा के अवसर पैदा करना और शारीरिक दूरी और सुरक्षा दिशानिर्देशों को पूरा करने के लिए व्यक्तिगत प्रशिक्षण को पुनः व्यवस्थित करना
- सार्वजनिक पहुंच आवश्यकताओं के माध्यम से शारीरिक दूरी का अनुपालन करना, सहायता के लिए नियुक्तियाँ उपलब्ध कराना
- एक व्यापक मीडिया और आउटरीच योजना को लागू करना ताकि जनता को मतदान और चुनावों में होने वाले बदलावों के बारे में सूचित किया जा सके और यह कि कैसे सुरक्षित रूप से मतदान किया जाए और मतपत्र लौटाएं।

COVID-19 के माहौल में दो चुनाव कराने के हमारे अनुभव और 3 नवंबर, 2020 के राष्ट्रपति आम चुनाव की हमारी तैयारियों के साथ, हमारा विश्वास है कि पारदर्शिता और ईमानदारी के आधार पर मतदाताओं के लिए पर्याप्त सेवाओं को बनाए रखते हुए चुनावों को सुरक्षित रूप से संचालित करने के लिए लचीलापन और परिवर्तन आवश्यक हैं।